



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित :

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३९१]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर २८, १९७०/कार्तिक ६, १८९२

No. 391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 1970/KARTIKA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October 1970

S.O. 3549.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954 as amended by the Coir Industry (Amendment) Rules, 1963, the Central Government hereby notifies that Dr. K. Mathew Kurian, Member, Rajya Sabha has been duly elected by the Rajya Sabha on May 13, 1970 to be a member of the Coir Board vice Shri Sher Khan who ceased to be a member of the Rajya Sabha from April 2, 1970.

[No. 21(6)-TEX. (D)/69-TEX. (E).]

P. K. SAMAL, Jt. Secy.

